

भारत सरकार
Government of India
गृह मंत्रालय, राजभाषा विभाग
Ministry of Home Affairs, Department of Official Language
हिंदी शिक्षण योजना (परीक्षा स्कंध)
Hindi Teaching Scheme (Examination Wing)

परीक्षा की तारीख -----

Date of examination

पारंगत परीक्षा- मई, 2022

प्रश्न पत्र - प्रथम

समय : 3 घंटे

पूर्णांक :100

1. नीचे दिए गए हिंदी शब्दों में से किन्हीं 10 शब्दों के अंग्रेजी पर्याय लिखिए और उनहिंदी शब्दों से कार्यालयीन हिंदी में वाक्य बनाइए ।

(15 अंक)

- | | | | |
|------------------|------------------|----------------|-------------------------|
| 1. अधोहस्ताक्षरी | 2. दावा | 3. कार्यसूची | 4. परिवीक्षाधीन अधिकारी |
| 5. प्रक्रिया | 6. परिकल्पना | 7. सिद्धांत | 8. अफवाह |
| 9. परिलब्धि | 10. संगरोध अवकाश | 11. अधिवर्षिता | 12. अपरिहार्य |

2. निम्नलिखित हिंदी वाक्यों का अंग्रेजी में अनुवाद कीजिए ।

(15 अंक)

- इन अस्थायी पदों को भरा जाना प्रस्तावित है ।
- अधिकारी किसी भी सेवा प्रदाता को चुन सकते हैं ।
- सूचना के अधिकार के तहत मांगी गई सूचना का उत्तर तत्काल दिया जाए ।
- आपातकालीन चिकित्सा प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करने के उपरांत ही बिल का भुगतान किया जाएगा ।
- वर्तमान कर्ज का परिसमापन किया जाए ।
- इस कार्य को निपटाने के लिए एक समिति गठित की जाए ।
- मामले को मंजूरी के लिए वित्त मंत्रालय को भेजा जाना अपरिहार्य है ।
- बिल की जाँच की गई और सही पाया गया ।
- उपकरणों के अनुरक्षण की जिम्मेदारी सेवा प्रदाता कम्पनी की होगी ।
- किसी भी स्थिति में अफवाहें न फैलने दी जाएं ।

3. निम्नलिखित में से किन्हीं दो स्थितियों पर यथा निदेशित मसौदे तैयार कीजिए।(20 + 20 अंक)

- (क) आपके कार्यालय में रिक्त पदों को भरने के लिए तीन सहायकों का चयन कर्मचारी चयन आयोग द्वारा किया गया है। इन चयनित उम्मीदवारों में से किसी एक की चिकित्सीय जाँच की जानी है। इस बारे में कार्यालय अधीक्षक स्तर पर टिप्पणी तैयार कीजिए एवं सिविल सर्जन को चिकित्सीय जाँच करने का अनुरोध करते हुए पत्र का मसौदा तैयार कीजिए।
- (ख) शिकायत मिली है कि कार्यालय में स्थापित कंप्यूटरों के रखरखाव के लिए जिस फर्म को अनुबंध दिया गया है, वह फर्म अपना कार्य ठीक से नहीं कर रही है। जिससे कार्यालय का कार्य करने में अवरोध उत्पन्न होने पर अति आवश्यक कार्य समय पर नहीं हो पाता। वस्तुस्थिति से कार्यालय अध्यक्ष को टिप्पणी प्रस्तुत कीजिए जिसमें उस फर्म का अनुबंध निरस्त करने की अनुशंसा की जाए। अनुमोदित टिप्पणी के आधार पर किसी अन्य फर्म को अनुबंध देने के लिए निविदा का मसौदा तैयार कीजिए।
- (ग) केंद्रीय स्वच्छता एवं पेयजल मंत्रालय द्वारा 'स्वच्छ भारत अभियान' की देशभर में सफलता के लिए विशेष प्रबंध करने एवं प्रोत्साहन योजनाएँ बनाने और उनका क्रियान्वयन करने के संबंध में जारी किए जाने वाले 'कार्यालय ज्ञापन' का मसौदा तैयार कीजिए और मसौदे को अनुमोदनार्थ प्रस्तुत करने संबंधी टिप्पणी प्रस्तुत कीजिए।

4. निम्नलिखित में से किन्हीं दो स्थितियों पर टिप्पणी तैयार कीजिए।

(10 + 10 अंक)

- (क) केंद्रीय सिविल सेवा क्रीडा बोर्ड द्वारा महिला कर्मिकों के लिए खेल प्रतियोगिता का आयोजन किया जाना है। कार्यालय अधीक्षक द्वारा प्रतियोगिता आयोजित करवाने हेतु पूर्ण विवरण के साथ एक स्वतःपूर्ण टिप्पणी लिखिए।
- (ख) श्रीमती सरोज बाला ने सरकारी सेवा में आने के बाद चंडीगढ़ को अपना गृह नगर घोषित किया था परंतु अब वे अपना गृह नगर बदलवाना चाहती हैं। नियमानुसार कार्रवाई करते हुए उनके आवेदन पत्र पर आधारित टिप्पणी तैयार कीजिए।
- (ग) आपके कार्यालय के सहायक अभियंता श्री अमित अपनी वरिष्ठता के मामले में निचली अदालत से जीत गए हैं। विभाग चाहता है कि इस मामले को उच्च न्यायालय में दाखिल किया जाए। मामले को दाखिल करने से पहले विधि मंत्रालय को एक अंतर विभागीय टिप्पणी लिखकर विधि मंत्रालय की राय लें कि क्या इस मामले को उच्च न्यायालय में दाखिल किया जाए ?

5. नीचे दिए गए वाक्यों में प्रयुक्त अंग्रेजी शब्दों के हिंदी पर्याय लिखते हुए हिंदी वाक्य पुनः बनाइए।

(10 अंक)

1. कृपया इसे इमीडिएटफॉलो करें।
2. टेंडरओपन करने के लिए कमेटी गठित की गई।
3. रिप्लाई का वेट कीजिए।
4. कृपया 'नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट' प्रस्तुत करें।
5. कॉपी निदेशक सेंट्रल हिंदी ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट को फारवर्ड करें।